

NovoRapid® FlexTouch® — घुमाकर, छूकर, और क्लिक करके इन्सुलिन डिलीवरी



घुमाएँ



पेन कैप को खींच कर निकाल दें।



सूई से कागज़ की घुंटी हटाएँ और फेंक दें।



सूई को NovoRapid® FlexTouch® में बिलकुल सीधी स्थिति में रखें और कस कर जोड़ दें। NovoRapid® FlexTouch®, NovoTwist® और NovoFine® सूइयों, दोनों के साथ प्रयोग करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

बड़ी बाहरी सूई कैप को खींच कर निकालें और उसे बाद में प्रयोग के लिए रखें। अंदरूनी सूई कैप को खींच कर निकालें और फेंक दें।



पेन को भरने के लिए, डोज़ सेलेक्टर को 2 यूनिट्स चयन करने के लिए घुमाएँ।



छूएँ



NovoRapid® FlexTouch® को सूई के साथ इस तरह पकड़ें कि वह ऊपर की ओर उन्मुख रहें और कार्ट्रिज को धीमे-धीमे थपथपाएँ।



पुश-बटन को छूएँ और पकड़े रखें। सूई की छोर पर इन्सुलिन की एक बूँद दिखनी चाहिए। यदि ऐसा न हो, तो प्रक्रिया को 6 बार तक दुहराएँ। यदि इन्सुलिन नहीं दिखती है, तो सूई बदलें और एक बार पुनः दुहराएँ। यदि इन्सुलिन की एक बूँद अब भी नहीं दिखती है, तो पेन में खराबी है और आपको नई पेन का प्रयोग करना चाहिए।



डोज़ सेलेक्टर (मात्रा चयनक) को यूनिट्स की उतनी संख्या का चयन करने के लिए घुमाएँ जिसे इंजेक्ट करना आपके लिए आवश्यक है।



डोज़ को पुश-बटन को छूकर और पकड़ कर उस समय तक इंजेक्ट करें जब तक डोज़ सेलेक्टर शून्य पर वापस नहीं पहुँच जाता।



क्लिक करें




जब डायल शून्य पर लौट आता है, तो खुराक-समाप्ति क्लिक डिलीवरी की पुष्टि करता है।

इस पुष्टि के बाद भी सूई को कम से कम 6 सेकेंड तक त्वचा के अंदर रहना चाहिए।



सूई को त्वचा से निकालें।



बड़ी बाहरी सूई कैप को एक सपाट सतह पर रखें, और, उसे या सूई को छूएँ बिना पेन को कैप में उस समय तक प्रविष्ट कराएँ, जब तक कि सूई कवर नहीं हो जाती।

उसके बाद कैप को पेन पर उस समय तक सरकाएँ जब तक कि वह भलीभाँति सुरक्षित न हो जाए।

सूई को निकालें और अपने पेशेवर स्वास्थ्य देखभालकर्ता के निर्देशानुसार उसका निपटान करें।

NovoRapid® FlexTouch® को बिना सूई जोड़े भंडारित करें और प्रत्येक बार प्रयोग करने के बाद पेन कैप को वापस चढ़ा लें। जब तक आपका अगला इंजेक्शन न लगे, तब तक NovoRapid® FlexTouch® को कमरे के तापमान पर भंडारित करें।

NovoRapid® (इन्सुलिन एस्पार्ट) को उन रोगियों की चिकित्सा के लिए संकेतित किया गया है जो डायबिटीज़ मेलिटस से ग्रस्त हैं और जिन्हें हाइपरग्लाइसीमिया को नियंत्रित करने के लिए इन्सुलिन की आवश्यकता है। इसे सामान्य तौर पर पथापथ्य नियमों के अंतर्गत मध्यवर्ती या दीर्घावधि तक कार्य करने वाली इन्सुलिन के साथ प्रयोग करना चाहिए। NovoRapid® (10 मिलीलीटर की शीशियों) को इन्सुलिन प्रविष्टि के लिए कनाडा में लाइसेंसीकृत पम्प प्रणालियों में निरंतर अवत्वचीय इन्सुलिन प्रवेश [continuous subcutaneous insulin infusion (CSII)] के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

कृपया NovoRapid® उपभोक्ता सूचना (Consumer Information) को वर्जित कार्य संबंधी निर्देशों, चेतावनियों और सतर्कताओं, प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं और खुराक देने की प्रक्रिया संबंधी एक संपूर्ण सूची के लिए देखें।

निर्माण-तिथि: अप्रैल 2012 यह पाठ्यांश (भाग) PAAB अनुमोदित APS से शब्दशः अनुवाद किया गया था।



समस्त ट्रेडमार्क्स का स्वामित्व Novo Nordisk A/S के पास है और उनका प्रयोग Novo Nordisk Canada Inc. द्वारा किया जाता है।

Novo Nordisk Canada Inc., 300-2680 Skymark Avenue, Mississauga, Ontario L4W 5L6.
टेलीफोन: (905) 629-4222 या 1-800-465-4334. www.novonordisk.ca

NovoRapid® FlexTouch®
(insulin aspart)



NR/04120029E